Indian GCCs: Captives to e-twins

AYUSHMAN BARUAH

lobal capability centres (GCCs) in India have come a long way from the early 1990s when they were referred to as 'captives' of their global headquarters (HQs) to today, when they are emerging as the 'digital twins' of their HQs, replicating the work done at their parent organisations and adding more value than ever before.

Indian GCCs today are more like mirrors of their parent organisations in the kind of work they do.

'Whatever is being done there can be done from here too. Distance has already vanished in a post-pandemic world, and the Indian entity has become as important or as imperative as any other office for the parent corporation," said Srikanth Srinivasan, vice-president and head, membership and outreach, National Association of Software and Service Companies (Nasscom).

For US-based enterprise software company Planview, its India centre is actually more than a digital twin; rather, it is a digital 'next generation'.

"We build today for what Planview wants to see tomorrow. This is because we had the opportunity to build everything brand new, right from skills to process. In a way, we are future-proofing the organisation," said Shalini Sankarshana, managing director (MD) and country manager, India, Planview.

She added that GCC evolution typically passes through a journey. It begins as an outsourcing unit of the parent company. Later, it moves on to higher involvement and modular ownership. Later still, it reaches the stage where the GCC takes complete ownership of a product or service line.

"At Planview, we set up a 360degree model where we directly leapfrogged to becoming like a digital twin of our parent organisation. This essentially means, that all of our products, services, and functions are represented in our Bengaluru office and managed from here. Collaboration with all of Planview is key here," said Sankarshana.

Take US retail giant Target, which began operations in Bengaluru in 2005.



FUTURE READY

- Indian GCCs leading the way in emerging tech such as AI, machine learning, blockchain, augmented reality, and VR
- In Q4 2023 alone, 10 new GCCs were established in India, according to the latest Nasscom-KPMG report
- For US-based enterprise software company Planview, its India centre is not just a digital twin but a digital next-generation because they had opportunity to build everything brand new
- UK-based Tesco aims to establish a world-class business solutions model in India with a global outlook

Today, it is a 'fully integrated' GCC and through a similar journey, evolving to life and deliver joy to guests through strategic partner for Target, so much so that it is often referred to as the second headquarters.

Target in India supports activities across marketing, technology, finance, analytics, digital, and the supply chain for its US operations.

UK-based Tesco believes it has been a pioneer in the development of a shared services or GCC model, which has, in recent years, matured into a leading 'intelligent business solutions' model.

"Our contribution and value to the group are not in silos. Rather, our purpose is to work collaboratively with the group and identify opportunities to add sustainable competitive advantage to Tesco. We are committed to more than just supporting the UK from India. Our aim is to establish a worldclass business solutions model with a global outlook," said Sanjay Dora, chief operating officer, Tesco Business Solutions and site leader, Bengaluru.

At Optum India, Uma Ratnam Krishnan, MD, echoes this view, calling GCCs a salient extension of the end-toend business model of the enterprise and completely aligned in terms of culture, values, and business objectives.

"At Optum India, we have gone

to becoming a strategic powerhouse that is integral to our parent organisation. We have a strong focus on working as one global team, where, based on the availability of the right talent, you can see multi-geography teams working cohesively, enabled through the tools of technology, towards our common goal of creating a healthier world for all. With the evolution of our delivery model, we have seen an increase in various global leadership roles being based out of our India footprint," she said.

Many Indian GCCs are also leading the way in artificial intelligence (AI), machine learning, blockchain, augmented reality, and virtual reality. Much of such high-tech work has been incubated in the Indian GCC before it is adopted globally.

For instance, Target's computergenerated imagery (CGI) capabilities were first incubated in India. Later, the team was expanded to the US.

"The CGI team builds high-quality creative and digital content for Target.com, including retail-advancing CGI imaging, 3D shoppable rooms, videos, images, and a wide range of creative content for dot com and our social media channels. It helps bring brands

powerful design and creative support," said Andrea Zimmerman, president, Target in India.

According to the latest Nasscom-KPMG report, in the fourth quarter of 2023 alone, 10 new GCCs were established in India, of which 60 per cent belonged to engineering, research and development, information technology services, and business process management sectors where niche skills like AI, data analytics, generative AI, and Cloud computing are in high demand.

US-based travel tech company, Sabre, said it has witnessed a remarkable surge in AI-related initiatives.

"We have cultivated a vast pool of talent dedicated to AI research and development, resulting in the creation of numerous AI platforms and products," said Sriram Gopalswamy, vicepresident of site reliability engineering and MD, Sabre Bengaluru.

Moreover, the company is actively integrating AI into its existing suite of products, enhancing their capabilities and functionality

"The contribution of our GCC in the AI space cannot be overstated. Our expertise and efforts have been instrumental in driving Sabre's AI initiatives forward," said Gopalswamy,

SPORTS WATCH >>>>

mybs.in/t20wc



T20 WORLD CUP: **INDIA LOSE OPENERS EARLY** VS PAKISTAN

The much-anticipated first India-Pakistan match in the USA was disrupted by rain on Sunday evening. After delay, Pakistan won the toss and decided to bowl first. At the time of going to press, India were 50-2 in 6 overs, having lost openers Rohit Sharma (13) and Virat Kohli (4). Rishabh Pant (15) and Axar Patel (15) were at the crease.

WEST INDIES CRUSH UGANDA BY 134 RUNS

In a rather one-sided contest, Spinner Akeal Hosein starred with a five-wicket haul as hosts West Indies thrashed newcomers Uganda by 134 runs in their Group C match at Providence Stadium in Guyana Sunday morning. West Indies put up 173-5 in 20 overs, with Johnson Charles slamming 44 and Andre Russell an unbeaten 30. In reply, Uganda could make only 39 runs in 12 overs, the joint-lowest T20 World Cup total.

Brief scorecard

West Indies: Johnson Charles 44, Nicholas Pooran 22, Rovman Powell 23, Sherfane Rutherford 22, Andre Russell 30*. Total: 173-5 in 20 overs. Bowling: Brian Masaba 2/31.

Uganda: 39 in 12 overs. Bowling: Akeal Hosein 5/11.

KANGAROOS TAME THREE LIONS

In the first match of heavyweights, Australia beat defending champions England by 36 runs at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados, on Saturday night. Batting first, Australia put 201-7 on the board, the highest in the tournament so far. In response, England managed only 165-6, with Adam Zampa and Pat Cummins claiming two wickets each for Australia. COMPILED BY ANISH KUMAR

Southwest monsoon arrives early in Mumbai

Account Name

The southwest monsoon arrived in Mumbai on Sunday, two days ahead of normal schedule due to favourable conditions along the Maharashtra coast, an India Meteorological Department (IMD) official said.

It usually arrives by June 11, although last year it made its onset on June 24 due to Cyclone Biparjoy over the Arabian Sea, the IMD official pointed

"Mumbai can anticipate thunderstorms accompanied by heavy to very heavy rainfall,

with a probability of realisation between 51 per cent and 75 per cent. Neighbouring areas such as Raigad and Ratnagiri stand a higher chance of experiencing heavy

> to very heavy rainfall. A red alert has been issued for Sindhudurg and its neighbouring district Kolhapur, emphasising heavy to very heavy rainfall in most areas," IMD said. Most districts in Maharashtra, espe-

cially in the Marathwada and Vidarbha regions, are expected to receive heavy rainfall, it added.

as on 05-06-2024

147663.65 90879.05 136901.83 115056.17

220092.54 213575.1 179749.95

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR DELISTING OFFER IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS 17(4) AND 23 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2021, AS AMENDED FROM TO TIME ("SEBI DELISTING REGULATIONS")

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF



SHARDUL SECURITIES LIMITED Corporate Identification Number (CIN): L50100MH1985PLC036937

Registered Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai - 400021; Tel. No: +91 22 46032806 / 22-46032807;

Email id: investors@shriyam.com; Website: www.shardulsecurities.com; Contact Person: Daya Bhalia, Executive Director and Company Secretary;
This post offer public announcement ("Post Offer Public Announcement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited

("Manager to the Offer") for and on behalf of A To Z Broking Services LLP ("Promoter Acquirer 1"), Rajesh Dinanath Chaturved ("Promoter Acquirer 2"), Gagan Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 3") and Brijesh Devesh Chaturvedi ("Promoter Acquirer 4"), ("Promoter Acquirer 1"), ("Promoter Acquirer 2"), ("Promoter Acquirer 3") and ("Promoter Acquirer 4") collectively referred to as *Promoter Acquirers*), and other members of promoter and promoter group of Shardul Securities Limited ("Company") to the public shareholders as defined under Regulation 2(1)(t) of the SEBI Delisting Regulations ("Public Shareholders") of the Company in respect of the acquisition of up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Hundred and Twenty Six) ("Offer Shares") equity shares of face value Rs. 10/- each ("Equity Shares") representing 25.16% of the paid up Equity Share Capital of the Company and consequent voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from the BSE Limited ("BSE"), the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, pursuant to applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer"). This Post Offer Public Announcement is in continuation to and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated December 15, 2023 ("IPA"), the Detailed Public Announcement dated May 20, 2024 published on May 21, 2024 ("DPA") in Business Standard (English-All Editions), Business Standard (Hindi - All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi - Mumbai Edition), the Letter Of Offer dated May 21, 2024 ("LOF") dispatched to the Public Shareholders on May 24, 2024 and the Corrigendum to the DPA and LOF dated May 30, 2024 published on May 31, 2024.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Public Announcement shall have the same meaning assigned to them as in the The Promoter Acquirers had issued IPA, DPA and LOF to acquire, in accordance with the SFBI Delisting Regulations up to 44.02.626

(Forty Four Lakhs Two Thousand Six Hundred and Twenty Six) ("Offer Shares") representing 25.16% of the Paid up Equity Share Capital of the Company, held by the Public Shareholders of the Company, being all the Public Shareholders of the Company other than the Promoter and the Promoter Group members, in accordance with provisions of the SEBI Delisting Regulations on the terms and conditions set out in the IPA, DPA and LOF. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to tender their Equity Shares pursuant to reverse book- building process as prescribed in the SEBI Delisting Regulations through Stock Exchange Mechanism made available by BSE ("Reverse Book Building Process"/ "RBBP") during the Bid Period started from Friday, May 31 2024 to Thursday, June 06, 2024 (both days inclusive) (in accordance with the SEBI Delisting Regulations ("Bids").

1. FAILURE OF THE DELISTING OFFER

In terms of Regulation 21 of the SEBI Delisting Regulations, this Delisting offer would be deemed to be successful only if the post offer shareholding of the Promoter Acquirers, along with the shares tendered / offered by public shareholders accepted as eligible bids at the discovered price or the counter offer price, as the case may be, reaches 90% of the total issued Share Capital of the Company, excluding such Equity Shares as per Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations ("Minimum Acceptance Condition") 1.2 Link Intime India Private Limited. Registrar to the Delisting Offer vide Certificate dated May 24, 2024, confirmed that the Letter o Offer has been dispatched to all the public shareholders, whose email ids were available, through email as an attachment to ema

and to the remaining shareholders (including those to whom email cannot be delivered successfully) by the speed post. 1.3 In the Reverse Book Building Process, a total of 5,04,702 Equity shares have been validly tendered between price range from ₹ 150.15 per Equity Share to ₹ 1,499 per Equity Share. However, the Shares tendered are less that the Minimum Acceptance Condition, as mentioned in Clause 1, 1 of this Post Offer Public Announcement and the post Delisting shareholding of the Promote Acquirers, along with the other promoter and promoter group, has not exceeded 90% of the total issued number of Equity Shares

(excluding such Equity Shares as per Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations) The Delisting Offer is thus considered to have failed in terms of Regulation 21(a) of the SEBI Delisting Regulations. Accordingly, the Promoter Acquirers will not acquire any Equity Shares tendered by the Public Shareholders in the Delisting Offe

and the Equity Shares of the Company will continue to remain listed on the Stock Exchange, Further, no final application will be made to the Stock Exchange for delisting of Equity Shares in terms of the provisions of the SEBI Delisting Regulations. Pursuant to Regulation 23(2) of the SEBI Delisting Regulations, the equity shares tendered / offered in terms of Schedule II of the SEBI Delisting Regulations have been released on the date of disclosure of the outcome of the reverse book building process, i.e

All other terms and conditions set forth in the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer remain unchanged. This Pos Offer Public Announcement is issued on behalf of the Promoter Acquirers by the Manager to the Offer in terms of Regulation 17(4) of the SEBI Delisting Regulations. All gueries may be directed to the Manger of the Offer or the Registrar to the Offer

The Post Offer PA is also expected to be available on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com, website of Manage to the Offer i.e. www.saffronadvisor.com and the website of the Company i.e. www.shardulsecurities.com.

MANAGER TO THE OFFER

SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, 6th floor, Centre Point, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 4973 0394; Fax: N.A.

E-mail id: delistings@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211 Validity of Registration: Permanent Contact Person: Saurabh Gaikwad/ Satei Darde

REGISTRAR TO THE OFFER

LINK Intime

C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083 **Tel. No.:** +91²810 811 4949; Fax: +91 22 49186060 Email id: shardul.delisting@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in

SEBI Registration Number: INR000004058: Validity of Registration: Permanent Contact Person: Pradnya Karanjekar

On the Behalf of Promoter Acquirers

Pravin Mundhwa³

*Signed by Pravin Mundhwa, for and on behalf of the Promoter Acquirers, holding Specific Power of Attorney dated 17

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby

informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal https://gold.samil.in on 19th June 2024 at 10.30 AM. The auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are bereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank

	100	8)	9 9		93	100	1211	KANAKAPURA	VENKATAMMA.	7052460		213575.1	46.4
420000	0.429.55.670.1249099	REPRESENTATION OF PARTIES	0.000 C0000	No. of	Bal. Outstanding	Majobt	1212 1213	KANAKAPURA KANAKAPURA	SHIVAMURTHY C G NOOR JAN	7784757 7817654	1	179749.95 524491.15	37.4 144.5
S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	Acc.	as on 05-06-2024	(grams)	1214	DEVANAHALLI	VADDI VIJAYKUMAR	7461970	2	141331.58	32.1
				7.1001	05-06-2024	34.000.000	1215	KUMBAKONAM	PADMA ASHOKAN	3405028	1	76113.93	16
1091	ANDHERI EAST	SURENDRA KUMAR PRAJAPATI	7298844	1	211324.3	64.5	1216	KUMBAKONAM	MUNUSAMY	7487706	1	114403.83	24
1092	NERUL - NAVI MUMBAI	THERATIL AVIN MATHEW	2188182	1	31952.5	7.8	1217	KUMBAKONAM	ANBARASU J	7635665	1	282427.66	61.1
1093	NERUL - NAVI MUMBAI	MANGESH SOPAN SHINDE	2854067	1	672252.25	224.6	1218	KUMBAKONAM CUDDALORE	MUJIPUR RAHMAN MOHAMED AREEF PUNITHAVATHI	7672630	3	988809.94	210.9
1094 1095	NERUL - NAVI MUMBAI NERUL - NAVI MUMBAI	MAHENDRACHAND GHEVARCHAND CHOUDHARY BUBERE MARUFA SAMIR	2974240 3065710	1	126762.25 304952.2	31.5 281.3	1219 1220	CUDDALORE	MOHANLAL	2724649 2824676	6	42863.92 653136.65	171.5
1096	NERUL - NAVI MUMBAI	NEETA GANGARAM JADHAV	3419771	i	255671.75	74.3	1221	CUDDALORE	RAJESWARIS	3482296	1	37929.93	7.9
1097	NERUL - NAVI MUMBAI	RAJARAM M MOTE	3528497	1	121538.95	31.5	1222	CUDDALORE	KALPANA R	3779613	8	206964.2	47.4
1098	NERUL - NAVI MUMBAI	MD RAFIQ KHAN	3630856	1	222473.1	56.6	1223	CUDDALORE	RAMADURAI	4723163	1	38263.33	8
1099	NERUL - NAVI MUMBAI	ASHISH R GOSWAMI	3775466	1	22685.45	5.5	1224	CUDDALORE	AMBIGA.	7393995	1	260593.25	58.2
1100	NERUL - NAVI MUMBAI NERUL - NAVI MUMBAI	ZAVED RAFIK UMESH RAMCHANDRA MORE	7168205 7261097	1	65074.55 317453.55	21.5 100.4	1225	CUDDALORE	UTHAMKUMAR.	7415254	39	3379852.9	692.3
1102	NERUL - NAVI MUMBAI	NIVRUTTI ATAMARAM PATIL	7311639	1	104589.9	26.3	1226	CUDDALORE	DHINESH R R	7418031	1	17541.63	15.8
1103	NERUL - NAVI MUMBAI	ASHFAQUE MOINUDDIN ANSARI	7846614	2	1182154.35	301.1	1227	CUDDALORE	BALASUBRAMANIAN S	7436783	2	74129.83	15.1
1104	KUDASSANAD	RESHMA NATH U R	7576838	2	96918.93	20.4	1228	CUDDALORE	SOHANLAL.	7437429	1	913812.1	187
1105	MALAPARAMBA - KOZHIKODE	T N PRAMOD	3224785	1	35659.11	7.4	1229	CUDDALORE	VEERASUNDARI.	7471156	1	49251.22	10.7
1106	THUMPAMON THUMPAMON	AMMINY C D JAYAKRISHNAN R	1772621 7825570	1	60582.85 12887.43	12.6	1230	CUDDALORE	KALIDOSSS	7479374	1	110228.57	24
1108	KARANCHIRA	ASHA JOSEPH	2586881	1	84186.11	17.53	1231	CUDDALORE	P SINGARAVEL	7483118	9	893738.2	184
1109	KARANCHIRA	BIJI SANTHOSHKUMAR	3013854	2	395372.91	84.46	1232	CUDDALORE	MANIKANDAN PALANISAMI DHANALAKSHMI	7493312 7501967	1	23113.79 84013.19	5.1
1110	KARANCHIRA	SUITHPA	3034498	1	17041.36	3.9	1234	CUDDALORE	LAKSHMANAKUMAR RAMANUJAM	7579184	3	199683.51	41.2
1111	KARANCHIRA	VISHNU V M	3626002	1	91611.89	20	1235	CUDDALORE	RAMANI M	7587350	2	341076.54	71.2
1112	KARANCHIRA KARANCHIRA	THASLEENA VUAYALAKSHMI BAHULEYAN	7283590 7831159	2	88544.78 788001.73	18.4 168.44	1236	CUDDALORE	KRISHNARAJ.	7669074	1	329165.72	63.2
1114	DOMBIVLI - WEST	SHANTHY JOSHI	2716927	í	13794.9	3.6	1237	CUDDALORE	DHINESH.	7676971	1	132991.83	27.7
1115	DOMBIVLI - WEST	VILAS SHANTARAM GONDHALI	2724320	2	151325.65	38.6	1238	CUDDALORE	SOWMIYA.	7796665	1	100057.7	25.1
1116	DOMBIVLI - WEST	MACHAVI VILAS GONDHALI	4769565	1	138584.1	37.2	1239	CUDDALORE	SWATHIPRIYA SURIYASAMY	7824594	1	864611.04	181.9
1117	DOMBIVLI - WEST	NISHAMOL VARGHESE	7069256	1	581528.25	152.8	1240	KUKATPALLY	BADDILA SREERAMULU	2990260	1	263416.85	64.2
1118	DOMBIVLI - WEST ULHAS NAGAR	SUDHIR SHIVAJI CHAVAN SANTOSH HARPAL SINGH	7258085 3411799	1	80444.05 65532	23.3 19.97	1241	KUKATPALLY	SHAIK BABU	3020750	1	128493.1	32.9
1120	ULHAS NAGAR	SUREKHA SHRIDHAR INGLE	3855610	1	61732.05	21.3	1242	KUKATPALLY	NAGAVELU SRINATH	3844525	1	95628.25	23.5
1121	ULHAS NAGAR	SUJATA SUBHASH GHOSH	4763873	1	41137.95	11.11	1243	KUKATPALLY	CHITIKINA KALYANI	7180846	1	10587	3
1122	THRIKKAKARA	NAVASTK	2727708	1	60221.14	12.58	1244 1245	SATARA SATARA	GANESH VIJAY KADAM SANJAY DATTU KALE	3090059 3168725	1	164545.53 46955.8	42.4 9.9
1123	THRIKKAKARA	MUMTHAS	2728192	1	75936.65	18.9	1245	SATARA	SANJAY DATTU KALE UMESH SIDDHESHWAR KANHERE	3168725 3309140	1	46955.8 181879.57	9.9
1124	THRIKKAKARA THRIKKAKARA	UMMER M M LENIN LALU	2734571 2964041	2	96057.17 137949.31	20.07	1246	SATARA	DASHARATH CHANGDED JADHAV	3369750	1	97494.26	20.3
1126	THRIKKAKARA	NUAS PS	3809949	1	396424.38	103.34	1248	SATARA	MANGESH RAMCHANDRA PALANGE	3853456	1	117745.49	25.4
1127	THRIKKAKARA	ARSHADKB	3851601	1	72830.18	15.4	1249	SATARA	SURAJ NAVNATH KENJALE	7359934	1	1786970.14	360.2
1128	THRIKKAKARA	HARIKRISHNAN A.S	4737953	1	39569.2	8.28	1250	SATARA	SURAJ KISAN JADHAV	7473621	1	174198.21	36.5
1129	THRIKKAKARA	RAHULR	7690323	1	369080.84	83	1251	SATARA	POONAM RAHUL SURYWANSHI	7776056	2	395505.5	98.7
1130 1131	MURINGOOR MURINGOOR	SHIJO ARCHUNAN MARUDHAPPA PANDIYAN	4737045 4753997	1	28622.67 111921.27	6.02	1252	JAMNAGAR	HITENDRASINH A JADEJA	2947494	1	346196.8	88.6
1132	PAYANKULAM	SHOW ALOSIUS	489876	1	71266.82	15.27	1253	JAMNAGAR	SATYENDRA KUMAR PRASAD	3363116	1	1072188.5	261.6
1133	PAYANKULAM	ROSILY POULOSE	2799060	1	51000.95	15	1254	JAMNAGAR	KESHARI SUCHITRA	3504091	1	1072188.5	261.8
1134	PAYANKULAM	JIJO KURIAKOSE	7120906	1	40153.38	8.34	1255	JAMNAGAR	LUSWALA SAFVAN	3528225	1	263255.1	64.15
1135	PAYANKULAM	K.G.SUNILKUMAR.	7238729	1	12937.47	2.5	1256	JAMNAGAR JAMNAGAR	GADHAVI NARANBHAI KAMAL MERUBHAI KESHWALA	3730578	1	35626.95	9.6
1136 1137	PAYANKULAM CHIRAKKADAVU	ARSHAL NAVAS JOSEPH T.P	7451300 2100854	1	58485.59 38088.85	12.2 7.9	1257 1258	JAMNAGAR	KAMAL MENUBHAI KESHWALA GEETABEN ASHOKBHAI KHIMSURIYA	7258786 7277005	1	220571.05 41981.5	44.5 11.6
1138	CHIRAKKADAVU	VISHNU S NAIR	4737571	1	119248.05	25.43	1259	JAMNAGAR	SAGTHIYA GOVINDBHAI	7284386	1	118834.65	33.9
1139	CHIRAKKADAVU	ANOOP PUSHPAN	4749473	1	68483.11	14.8	1260	JAMNAGAR	JADEJA ARUNABA	7326085	1	81509.35	20.4
1140	ATTINGAL	RENJITH U	3884589	1	87997.67	21	1261	JAMNAGAR	CHAVDA DILIPKUMAR BHIMASHIBHAI	7649538	1	449417.4	120.4
1141	ATTINGAL	POORADAM FINANCE	4794449	106	5913603.85	1207.86	1262	JAMNAGAR	CHHATRAPALSINH JADEJA	7686721	2	50099.05	12.3
1142 1143	ATTINGAL EDAPPAL	SVALSALA KUMARI PRATHEESH K	7636917 7092736	1	114099.69 948416.29	23.9	1263	JAMNAGAR	KAVAD HANSABEN	7825846	1	1999113.05	513.2
1144	EDAPPAL	SAIFUDEENT	7213449	1	739381.77	153.5	1264	JAMNAGAR	KAVAD VASANBEN	7826003	1	2700811.26	706.9
1145	HOSKOTE	NATARAJA C	2664423	1	187688.95	40	1265	JAMNAGAR	KAVAD BHAVNABEN	7826023	1	2799201.15	727.3
1146	HOSKOTE	SRINIVASAMURTHY B	2714390	1	397076.1	104.5	1266	MARTHANDAM	THASEEN H	7326487	1	28804.75	6
1147	HOSKOTE	NAVEENA. K.C.MUNIRAJU	4744346 7270215	1	20614.18 180008.03	4.38 39.5	1267	MARTHANDAM	JIJI CHANDRA SEKAR	7516972	2	26639.25	5.5
1149	HOSKOTE	MUNIRAJU K	7391949	1	19820.5	4.2	1268 1269	MARTHANDAM MARTHANDAM	DINESH KUMAR T S ANTONY RAJAYAN	7723010 7835781	2	71029.62 30747.85	14.55 7.5
1150	HOSKOTE	SRINIVAS R	7413196	2	911092.68	191.4	1270	PERIYANAKENPALAYAM	BHOOPAL RAJPADUA R C	3463104	i	57062.26	11.9
1151	HOSKOTE	NARAYANASWAMY	7518271	1	1029807	246.9	1271	PERIYANAIKENPALAYAM	P SANGEETHA	3627013	1	63720.99	14.4
1152	HOSKOTE	G RAXSHITH GOWDA	7589350	1	467930.09	98	1272	PERIYANAIKENPALAYAM	BHAWARLAL D	3888327	3	138757.5	31.6
1153 1154	NASIK NASIK	BHALERAO DEVDHAR LAXMAN KANTA RAMESH MANE	2753133 3386633	1	57421.7 144114.35	15.5 30.1	1273	PERIYANAIKENPALAYAM	VIJAYA FINANCE	4742945	7	185512.3	42
1155	NASIK	DEEPAK BABULAL WAGH	3433397	1	42080.65	10.3	1274	PALLADAM	MUTHU KRISHNAN	3224071	1	93277.55	21.8
1156	HOSUR	OMPRAKASH.	3090964	8	762744.17	160.4	1275	PALLADAM	SUNDARAMOORTHY	3572593	1	42518.52	9
1157	HOSUR	RJAREENA	3533974	1	27281.47	7	1276	PALLADAM	MANOJKUMAR	7819179	1	292948.01	61.8
1158 1159	HOSUR HOSUR	CHANDHIRAMOULI SRINIVASAN NAGARAJ	4747798 4748043	1	76422.94 93863.03	15.9	1277	PALLADAM	CHITRADEVI.	7829415	1	511343.29	107.8
1160	HOSUR	PADMA M	4748043 4752120	1	93863.03 29355.84	6.1	1278	VALANCHERY	APARNA M MANOJ KRISHNAKUMAR V	7044410	1	278687.05	58.8
1161	HOSUR	HARISH K	7126139	1	37967.49	7.9	1279 1280	KOTTAKKAL KOTTAKKAL	KRISHNAKUMAR V ABDURAFEEQ THOTTIYIL	3733246 7034012	1	32836.6 145963.39	16 30.5
1162	HOSUR	BHAVNA SONI	7160173	1	167469.49	35	1281	NAMAKKAL NAMAKKAL	BALAJI RAJU	3197245	1	14079.29	2.9
1163	HOSUR	SATHISH BATHIYAPPA	7295597	1	249178.9	53	1282	NAMAKKAL	BALASUBRAMANIAN P	3678237	1	19465.69	4.1
1164 1165	HOSUR HOSUR	MANAK RAM KANA RAM AMARA RAM	7326220 7337609	3	139576.55 366056.25	33.3 79.8	1283	NAMAKKAL	SELVI SAKTHIVEL	7640935	1	59329.14	12.1
1166	HOSUR	SADAM KHAN USMAN	7539700	1	60449	12.6	1284	GHAZIABAD	RITU PANDEY	3397347	1	82331.5	22.8
1167	AURANGABAD	RAMA RAVINDRA SHINGARE	3457251	1	38560.14	9.75	1285	GHAZIABAD	KISHOR	3862243	1	154975.07	39.1
1168	AURANGABAD	MOHAMMED KHALID KHAN	3550919	1	55564.98	14.8	1286	GHAZIABAD	KAILASH CHANDRA YADAV	7707381	1	320709.3	94.1
1169	VISAKHAPATNAM	PASALA MANIKANTA	7319588	2	294953.33	61.8	1287	GHAZIABAD	AKSHAY NAGAR	7715333	1	588595.45	172.7
1170	VISAKHAPATNAM VISAKHAPATNAM	YARADA SIVA YERRAMSETTY JAYA PRAKASH	7410269	1	79529.15 93266.28	16.6	1288	GHAZIABAD	HIMANSHU YADAV	7723506	1	507333.85	142.5
1172	VISAKHAPATNAM	PATIVADA RAMAKRISHNA SURYA CHANDRA SANKAR	7540328	1	65430.39	14.3	1289	GHAZIABAD	SHASHI BHUSHAN	7805563	1	274426.61	65.8
1173	VISAKHAPATNAM	MANNEPURI RAMAKRISHNA	7574307	1	673365.16	140.5	1290	KOSI KALAN KOSI KALAN	DHARAMVEER SINGH RAJVIR	7057331 7280864	1 2	542918.6 194615.9	147.82 54.17
1174	VISAKHAPATNAM	ALLA SRI KRISHNA VASTAV	7578282	1	618072.55	128.4	1291	KOSI KALAN	RAJNI AGRAWAL	7485777	3	313009.68	91.7
1175	VISAKHAPATNAM VISAKHAPATNAM	GUNTU RAMESH JAGARAPU LAKSHMANA RAD	7625119 7633196		187318.98 28485.82	39	1292	KOSI KALAN	OMA	7745985	1	207001.01	109.17
1176	VISAKHAPATNAM	SARASWATHI DUNGA	7633196	1	275821.4	58.1	1294	KOSI KALAN	RAJRANI	7837148	1	200716.85	59.8
1178	VISAKHAPATNAM	GUDIVADA RAMALAKSHMI	7652381	1	2666047.08	581.9	1295	KAMAN	KOSHANDAR.	3286421	1	90239.25	23.7
1179	VISAKHAPATNAM	KOTIPALLI PAIDITALLI	7657810	1	132754.07	27.8	1296	KAMAN	NANDRAM.	3641116	1	50754.25	16.9
1180	VISAKHAPATNAM	PYLA ARUNA	7662679	1	2666047.08	575	1297	KAMAN	GOPALPRASAD	3779990	1	85643.3	25.4
1181 1182	VISAKHAPATNAM VISAKHAPATNAM	KOLLA VARALAXMI BALAGA SURYA RAO	7662704 7683115	2	2429746.51 370956.93	554 77	1298	KAMAN	RAMESH CHAND	3830504	2	281091.8	89.7
1182	VISAKHAPATNAM	GUNDALA PRAVEEN KUMAR	7683115	1	55203.42	11.5	1299	KAMAN	ARIHANT KUMAR JAIN	7357770	1	74405.1	27
1184	VISAKHAPATNAM	KORLA ANIL KUMAR	7763170	i	81740.74	17	1300	KAMAN	MANOJKUMAR	7490303	1	57255.95	15.5
1185	VISAKHAPATNAM	VANAPALLI YERRAYAMMA	7767981	1	116767.81	24.3	1301	KAMAN	NRAJ.	7717852	1	291370.15	76.5
1186	VISAKHAPATNAM	MAROJU SRINU	7774902	1	341269.31	71.1	1302	KAMAN KAMAN	RAMLAKHAN .	7823584	1	80835.05	22.9
1187 1188	VISAKHAPATNAM VISAKHAPATNAM	KOLA RAMBABU YELLAPU SATYAVATHI	7800131 7829882	1	179439.6 531724.5	37.5 110.8	1303 1304	KAMAN	MOHAN LAL ROHTASH KUMAR	7829113 7829680	1	299253.95 207736.5	100 63.2
1188	VISAKHAPATNAM AVADI	YELLAPU SATYAVATHI SUNIL BOHARA	7829882 2671505	33	1474236.75	333.35	1304	AGRA	ASHOK KUMAR JAIN	3061407	1	1745820.5	425.09
1190	AVADI	SOMANATH	2904206	1	228665.9	52	1305	AGRA	HARENDRA KUMAR	3742314	1	69081.9	21.7
1191	AVADI	DILLIBABU S	7248084	1	148502.44	33.5	1307	AGRA	PIYUSH GARG	7327140	1	109759.35	27.2
1192	AVADI	AMUDHA T	7329710	1	114276	25.2	1308	AGRA	RANJEET SINGH	7823277	1	210864.55	55.22

7823277 1 210864.55 55.22 For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal https://gold.samil.in

Authorised Officer CSB Bank


मोदी सरकार 3.0: मंत्रिमंडल के चेहरे

मृदुभाषी और कुशल प्रशासक हैं राजनाथ

•क रणनीतिकार और जमीनी स्तर से जुड़े एक सर्वोत्कृष्ट नेता राजनाथ सिंह को नब्बे और उसके बाद के दशकों में हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठनात्मक नेटवर्क का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। भौतिकी के प्रोफेसर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली दुसरी सरकार में देश के रक्षा मंत्री तक का महत्वपूर्ण सफर तय करने वाले राजनाथ भाजपा के ऐसे मजबत स्तंभ हैं जिनकी पहचान कुशल प्रशासक और राजनीतिक शुचिता का सम्मान करने वाले परिपक्व नेता के रूप में होती है।

राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के चंदौली जिले से आने वाले सिंह को एक उदारवादी चेहरे के रूप में जाना जाता है और पार्टी लाइन से हटकर नेताओं के बीच उनका व्यापक सम्मान है। मधुरभाषी और नपा तुला बोलने वाले सिंह प्रतिद्वंद्वियों पर कमोबेश निजी हमले करने से परहेज करते हैं। पार्टी में उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी के बाद वह ऐसे नेता हैं जिन्होंने दो अलग-अलग कार्यकाल के लिए पार्टी की कमान संभाली है। राजनाथ पर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक विरासत को इस लिहाज से आगे बढ़ा रहे है कि उन्होंने वाजपेयी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ से लगातार चार बार विजय प्राप्त की। उन्होंने वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री का प्रभार भी संभाला था। आडवाणी तीन बार (1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005) पार्टी अध्यक्ष रहे, जबिक सिंह 2005 से 2009 तक अध्यक्ष रहने के बाद 2013-14 में भी भाजपा अध्यक्ष रहे । उन्हीं के अध्यक्ष रहते पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी के नाम पर महर लगी थी।

संघ के साथ उनके बेहतर रिश्ते का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आडवाणी के जिन्ना प्रकरण के बाद संघ ने सिंह को ही पार्टी के अध्याक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार पार्टी की कमान तब संभाली थी जब एक मामले में नितिन गडकरी का नाम सामने आया था। साधारण किसान परिवार में जन्मे सिंह ने मामूली कार्यकर्ता से लेकर पार्टी



भाजपा में सफलता की सीढ़ी संघ है और राजनाथ सिंह का राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से गहरा नाता है

के अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री जैसे अहम पद का जिम्मा संभाला है। वह सियासत में कदम रखने से पहले मिर्जापुर के कॉलेज में व्याख्याता हुआ करते थे।

भाजपा में सफलता की सीढ़ी संघ है और सिंह का राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से गहरा नाता है। वर्ष 1964 में 13 वर्ष की अवस्था में ही वह संघ से जुड़ गए। व्याख्याता बनने के बाद भी संघ से उनका जडाव बना रहा। राजनाथ ने हाल में एक टीवी साक्षात्कार में आपातकाल के दौरान जेल में रहने के दौरान उनकी मां के निधन का उल्लेख किया था। वह यह बताते समय भावुक हो गये थे कि तत्कालीन जेल प्रशासन ने उन्हें उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनमति

सिंह को 1986 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बाद में वह 1988 में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी साल सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हए। साल 1991 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो राजनाथ को शिक्षा मंत्री बनाया गया। वर्ष 1994 में वह राज्यसभा भेजे गए और 1997 में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने नकल-रोधी कानून लागु करवाया था। इसमें नकलची विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल से गिरफ्तार किया जाता था और जमानत अदालत से मिलती थी। साथ ही वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में भी शामिल करवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। सिंह 20 अक्टरबर 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यममंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल दो साल से भी कम समय का रहा। इसके बाद केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी-नीत राजग सरकार में सिंह को भूतल परिवहन और कृषि मंत्री बनाया गया था। उनको पहेली बार पार्टी की कमान 2005 से 2009 तक मिली तो दुसरी बार वह इस पद पर 2013 से 2014 तक रहे।

सिंह 2009 में गाजियाबाद और 2014 तथा 2019 में लखनऊ से सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें देश का गृहमंत्री बनाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभाला था। रक्षा मंत्री के तौर पर वह राफेल विमान की पहली खेप लेने के लिए 2020 में जब फ्रांस गये थे और उन्होंने इस विमान की पुजा की थी तो वह काफी चर्चा में रहे थे।


जयशंकर : पेश किया मुखर विदेश नीति दृष्टिकोण

मर्ड 2019 में जब जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने, तो विदेश नीति पर उनकी निर्विवाद महारत के बावजूद उन्हें बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप से



अपनी असाधारण कशाग्रता और कार्यकशलता के लिए जाने जाने वाले विदेश मंत्री ने भारत में, विशेषकर युवाओं से, प्रशंसा अर्जित की है, मुख्यतः भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं के बारे में अपनी निर्णायक कार्यशैली के लिए। सार्वजनिक भाषणों और साक्षात्कारों के उनके कुछ वीडियो विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर बहुत लोकप्रिय हए हैं।

शह को मात में बदलने में माहिर अमित शाह



लगातार दुसरी बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेते अमित शाह।

अपने राजनीतिक एवं रणनीतिक कौशल के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पार्टी की ताकत अभूतपूर्व रूप से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इस कौशल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के 300 सीट का आंकड़ा पार करने में मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में दूसरे सबसे प्रभावशाली और भाजपा की विचारधारा के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले 59 वर्षीय शाह उस समय बडे दिग्गज नेता के रूप में उभरे जब पार्टी महासचिव के रूप में उनके नेतृत्व में भाजपा नीत गठबंधन ने 2014 में उत्तर प्रदेश से 73 सीट हासिल कीं। सडकों पर अपनी पार्टी के पोस्टर और पर्चे चिपकाकर अपनी राजनीतिक यात्रा शरू करने जनता पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार करने वाला 'चाणक्य' कहा जाता है क्योंकि वह बुथ से लेकर चुनाव मैदान तक प्रबंधन और प्रचार की ऐसी सधी हुई बिसात बिछाते हैं

कि मंझे से मंझे राजनीतिक खिलाडी भी अकसर मात खा जाते हैं।शतरंज खेलने से लेकर क्रिकेट देखने एवं संगीत में गहरी रुचि रखने वाले अमित शाह को राजनीति का माहिर रणनीतिकार माना जाता है।

इस वर्ष अक्टूबर में अपने जीवन के छह दशक पूरे करने जा रहे शाह को राज्य दर राज्य भाजपा की सफलता गाथा लिखने का सुत्रधार माना जाता है। गत चार जुन को घोषित आम चुनाव के परिणामों में शाह ने गांधीनगर संसदीय सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को सात लाख 44 हजार से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। वर्तमान लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण भारत में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए उनकी सफल रणनीति को श्रेय दिया जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि शाह वाले अमित शाह को भारतीय ने विचारधारा की दूढ़ता, असीमित राजनीतिक कल्पनाशीलता और वास्तविक राजनीतिक लचीलेपन का शानदार मिश्रण करके चनावी समर में भाजपा की शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया।

'रोडकरी' के नाम से मशहूर हैं गडकरी

स्वयंसेवक (ओरएसएस) और उससे संबंद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से अपना सामाजिक-राजनीतिक सफर शुरू वाले नितिन गडकरी ने पहले राज्य स्तर और फिर केंद्र में सडक परिवहन मंत्रालय में अपने काम को इतनी कुशलता से किया कि लोगों के बीच वह ''हाईवे मैन ऑफ इंडिया'' एवं 'रोडकरी' के नाम से मशहूर हुए। वह भाजपा के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनके मित्र हर राजनीतिक दल में हैं।

संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में जन्मे और पले-बढ़े 67 वर्षीय गडकरी ने रविवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। गडकरी ने महाराष्ट सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक वह लोगों की यथासंभव मदद करना के रूप में काम किया और राज्य में मंत्री रहते हुए सड़कों, राजमार्ग और चाहते हैं और उनके जीवन में बंदरगाहों समेत अवसंरचना के क्षेत्र में काफी काम किया है और उन्हें देश की अनेक विकास परियोजनाओं को तय लक्ष्य पर परा करने के लिए भी



जाना जाता है। गडकरी को पिछले 10 वर्षों में देश में 90,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों और 30,000 किलोमीटर नई सडकों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस वर्ष की शुरुआत में वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा था कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते रहना चाहते हैं। गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट पर निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के विकास ओवर मैन' कहा जाने लगा। **भाषा**

ठाकरे को एक लाख 37 हजार से अधिक मतों से पराजित किया। उन्हें इस सीट से लगातार तीसरी बार सफलता मिली है।

महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक

मध्यमवर्गीय कृषि परिवार में 1957 में जन्मे गडकरी बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में छात्र नेता के रूप में काम करते हुए उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की सदस्यता ली। गडकरी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश तब हुआ जब उन्हें 2009 में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह 1989 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने। उन्होंने 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग मंत्री राजमार्गों, खासकर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अनेक फ्लाईओवर के निर्माण के बाद उन्हें राजनीतिक हलकों और जनता के बीच 'फ्लाई

'मामा' जानते हैं जनता की नब्ज

भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनने से वंचित होने के बाद दरकिनार किए जाने के अपने आलोचकों के दावे को गलत साबित करते हुए छठी बार मध्य

प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट 8.21 लाख मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीती। रविवार को उन्होंने पहली बार केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली।

'मामाजी' के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री

शिवराज सिंह चौहान अपने विनम्र एवं मिलनसार स्वभाव के कारण अपने मित्रों ही नहीं विरोधियों में भी पसंद किए जाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में वे उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनके पास काफी लंबे

समय इतने बड़े राज्य को चलाने का विदिशा से उतारा जिसका प्रशासनिक कौशल रहा है। चौहान ने चार जून को घोषित आम चुनाव 2024 के परिणामों में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को आठ लाख 21 हजार के भारी अंतर से पराजित कर विदिशा लोकसभा सीट जीती। यह संयोग है कि भारतीय जनता

पार्टी ने उन्हें इस आम चुनाव में

प्रतिनिधित्व वह पांच बार कर चुके थे। वह प्रदेश की जनता विशेष रूप से बच्चों में ''मामाजी' के नाम से लोकप्रिय हैं, जबिक मुख्यमंत्री बनने से पहले अपनी लोकसभा सीट विदिशा में अमूमन पैदल चलने के कारण वह 'पांव-पांव वाले भैया' के नाम से पुकारे जाते थे।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जेम (GeM) निविदा सूचन सिडबी, निम्नलिखित हेतु पात्र प्रदाताओं को जेम जमा करने के लिए आमंत्रित करता हैः निविदा विवरण जेम निविदा संदर्भ संख्या आईटी आर्किटैक्चर और सरक्षा के GEM/2024/B/4996989 विस्तत निविदा दस्तावेज के लिए कृपया GeM Portal (gem.gov.in) या हमारी वेबसाइट www.sidbi.in देखें। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि

कोई हो, केवल उपर्युक्त वेबसाइटों में प्रकाशित किया जाएगा।

SHRIRAM

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 156, दूसरी मंजिल, एलेन सॉली शोरूम के ऊपर, राठौर नगर, वैशाली, जयपुर-302021, वेबसाइट : www.shriramfinance.ir

SHRIRAM City

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार 'श्रीराम सिटी यनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम टांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम टांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया. जो दिनांक

साकेतिक कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धार 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथ जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 07.06.2024 को सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथ उस पर ब्याज के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार का नाम एवं पता	मांग सूचना
ऋण संख्या JAPR1TF1505260001 1. मेसर्स तैयब हुसैन (प्रोपराइटर तैयब हुसैन) (कर्जदार) पता- दुकान संख्या अ-353, ट्रांसपोर्ट नगर, अलवर, राजस्थान-301001 2. श्री तैयब हुसैन पुत्र असर खान (सह- कर्जदार/गारंटर) 3. श्रीमती खुर्शीदन पत्नी तैयब हुसैन (सह- कर्जदार/गारंटर) सभी का पता: - 3/113 एनईबी एक्सटेंशन तुलेडा हाउसिंग बोर्ड, अलवर राजस्थान-301001 सांकेतिक कब्जे की तिथि- 07-जून-2024 एनपीए- 31 -अक्टबर-2016	मांग सूचना दिनांक- 15-03-2024 रु. 3256956/- (रुपये बतीस लाख छप्पन हजार नौ सौ छप्पन मात्र) दिनांक 14 मार्च 2024 को फोरक्लोजर राशि के अनुसार नियम व शर्तों के अनुसार अतिरिक्त व्याज व शुल्क के साथ

सम्पत्ति का विवरण अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (यूआईटी) की दुकान संख्या 353-सी, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्ट ए स्कीम, अलवर, राजस्थान में स्थित भिम और भवन का समस्त भाग, क्षेत्रफल 22,22

सीमाः पूर्व में:- सड़क 60 फीट, पश्चिम में: दुकान संख्या 388, उत्तर में: सड़क 60 फीट, दक्षिण में: दकान संख्या 354

प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है ह./-अधिकत पाधिकारी तिथि : 08 जून, 2024 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR DELISTING OFFER IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS 17(4) AND 23 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2021, AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("SEBI DELISTING REGULATIONS")

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF



SHARDUL SECURITIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L50100MH1985PLC036937 Registered Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai - 400021; Tel. No: +91 22 46032806 / 22-46032807;

Email id: investors@shriyam.com; Website: www.shardulsecurities.com; This post offer public announcement ("Post Offer Public Announcement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited

"Manager to the Offer") for and on behalf of A To Z Broking Services LLP ("Promoter Acquirer 1"), Rajesh Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 2"), Gagan Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 3") and Brijesh Devesh Chaturvedi ("Promoter Acquirer 4"), ("Promoter Acquirer 1"), ("Promoter Acquirer 2"), ("Promoter Acquirer 3") and ("Promoter Acquirer 4") collectively referred to as noter Acquirers"), and other members of promoter and promoter group of Shardul Securities Limited ("Company") to the public shareholders as defined under Regulation 2(1)(t) of the SEBI Delisting Regulations ("Public Shareholders") of the Company in respect of the acquisition of up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Hundred and Twenty Six) ("Offer Shares") equity shares of face value Rs. 10/- each ("Equity Shares") representing 25.16% of the paid up Equity Share Capital of the Company and consequent voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from the BSE Limited ("BSE"), the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, pursuant to applicable provisions of the SEBI Delisting Regulations ("Delisting Offer"). This Post Offer Public Announcement is in continuation to and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated December 15, 2023 ("IPA"), the Detailed Public Announcement dated May 20, 2024 published on May 21, 2024 ("DPA") in Business Standard (English-All Editions), Business Standard (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumbai Edition), the Letter Of Offer dated May 21, 2024 ("LOF") dispatched to the Public Shareholders on May 24, 2024 and the Corrigendum to the DPA and LOF dated May 30, 2024 published on May 31, 2024.

The Promoter Acquirers had issued IPA, DPA and LOF to acquire, in accordance with the SEBI Delisting Regulations up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Hundred and Twenty Six) ("Offer Shares") representing 25.16% of the Paid up Equity Share Capital of the Company, held by the Public Shareholders of the Company, being all the Public Shareholders of the Company other than the Promoter and the Promoter Group members, in accordance with provisions of the SEBI Delisting Regulations on the terms and conditions set out in the IPA, DPA and LOF. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to tender their Equity Shares pursuant to reverse book-building process as prescribed in the SEBI Delisting Regulations through Stock Exchange Mechanism made available by BSE ("Reverse Book Building Process"/ "RBBP") during the Bid Period started from Friday, May 31, 2024 to Thursday, June 06, 2024 (both days inclusive) (in accordance with the SEBI Delisting Regulations ("Bids").

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Public Announcement shall have the same meaning assigned to them as in the

FAILURE OF THE DELISTING OFFER In terms of Regulation 21 of the SEBI Delisting Regulations, this Delisting offer would be deemed to be successful only if the post offer shareholding of the Promoter Acquirers, along with the shares tendered / offered by public shareholders accepted as eligible bids at the discovered price or the counter offer price, as the case may be, reaches 90% of the total issued Share Capital of the

Company, excluding such Equity Shares as per Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations ("Minimum Acceptance Condition"). Link Intime India Private Limited, Registrar to the Delisting Offer, vide Certificate dated May 24, 2024, confirmed that the Letter of Offer has been dispatched to all the public shareholders, whose email ids were available, through email as an attachment to email and to the remaining shareholders (including those to whom email cannot be delivered successfully) by the speed post.

In the Reverse Book Building Process, a total of **5,04,702** Equity shares have been validly tendered between price range from 150.15 per Equity Share to ₹ 1,499 per Equity Share. However, the Shares tendered are less that the Minimum Acceptance Condition, as mentioned in Clause 1.1 of this Post Offer Public Announcement and the post Delisting shareholding of the Promoter Acquirers, along with the other promoter and promoter group, has not exceeded 90% of the total issued number of Equity Shares (excluding such Equity Shares as per Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations). The Delisting Offer is thus considered to have failed in terms of Regulation 21(a) of the SEBI Delisting Regulations.

Accordingly, the Promoter Acquirers will not acquire any Equity Shares tendered by the Public Shareholders in the Delisting Offer and the Equity Shares of the Company will continue to remain listed on the Stock Exchange, Further, no final application will be made to the Stock Exchange for delisting of Equity Shares in terms of the provisions of the SEBI Delisting Regulations.

1.6 Pursuant to Regulation 23(2) of the SEBI Delisting Regulations, the equity shares tendered / offered in terms of Schedule II of the SEBI Delisting Regulations have been released on the date of disclosure of the outcome of the reverse book building process, i.e.

All other terms and conditions set forth in the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer remain unchanged. This Post Offer Public Announcement is issued on behalf of the Promoter Acquirers by the Manager to the Offer in terms of Regulation 17(4) of the SEBI Delisting Regulations. All queries may be directed to the Manger of the Offer or the Registrar to the Offer.

The Post Offer PA is also expected to be available on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com, website of Manager to the Offer i.e. www.saffronadvisor.com and the website of the Company i.e. www.shardulsecurities.com.

REGISTRAR TO THE OFFER MANAGER TO THE OFFER

SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED 605, 6th floor, Centre Point, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India

Tel. No.: +91 22 4973 0394; Fax: N.A.

E-mail id: delistings@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211 Validity of Registration: Permanent

Contact Person: Saurabh Gaikwad/ Satei Darde

Fax: +91 22 49186060

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED

C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083 Email id: shardul.delisting@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Registration Number: INR000004058; Validity of Registration: Permanent Contact Person: Pradnya Karanjekar

On the Behalf of Promoter Acquirers

Pravin Mundhwa *Signed by Pravin Mundhwa, for and on behalf of the Promoter Acquirers, holding Specific Power of Attorney dated $17^{ ext{th}}$

पहली बार लोस सांसद पीयूष गोयल फिर मंत्री

केंद्र में नरेंद्र मोदी नीत सरकार के दुसरे कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रहे और अहम मंत्रालयों का प्रभार संभाल चुके भाजपा नेता पीयूष गोयल मुंबई उत्तर सीट से भारी मतों के अंतर से 2024 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने संसद के उच्च सदन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान कई मौकों पर सरकार की स्थिति को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंड और एलएलबी की डिग्री रखने वाले पीयूष गोयल (59) भले ही एक राजनीतिक परिवार से आते हो लेकिन उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपने बेहतरीन काम और अपनी मृदुभाषा के कारण अपने मित्रों ही नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों के बीच भी सम्मान अर्जित किया है। पिछली दो सरकारों में विभिन्न समयों पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नवीनीकृत एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ कुछ समय के लिए वित्त मंत्रालय का

रेल मंत्री के तौर पर गोयल का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस दौरान देश भर के रेल नेटवर्क को मजबूत करने में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा

प्रभार भी संभाला था।

प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा |भारतीय ऋणषोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिये क्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत। रामा पेपर मिल्स लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ रामा पेपर मिल्स लिमिटेर निगमित देनदार का नाम रजिस्ट्रॉर ऑफ कंपनीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर निगमीकृत / पंजीकृत है निगमित देनदार की निगमित पहचान सं./ सीमित दायित्व पहचान सं. L27104UP1985PLC007556 निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तह प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता पंजीकत कार्यालय : नजीबाबाद मार्ग कीरतपर जनपद निगमित कार्यालय 314, दीपशिखा भवन, 8 जन. 2024 माननीय राष्ट्रीय कंपनी अधिकरण 7 जून, 2024 नाननाथ राष्ट्राय कंपना आवकरण इलाहाबाद पीठ द्वारा आदेश की घोषणा की तिथि के रूप में (8 जून 2024 ईमेल के माध्यम ते आदेश की प्राप्ति की तिथि के रूप में) नेगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) गुरू होने की तारीख से 180 दिन यानी 4 दिसंबर, 2024 श्री संदीप कुमार अग्रवाल पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01135/2018-2019/1182 बोर्ड के साथ पत्राचार हेतु पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान व्यवसायी का पता एवं ई–मेल पता : 523, पॉकेट-ई, मयुर विहार फेज-2, दिल्ली-110 09 ईमेल : ipsandeepagrawal@gmail.com **पता**─ 523, पॉकेट—ई, मयूर विहार फेज—2, दिल्ली — 110 09 11. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि अंतरिम समाधान व्यवसायी द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के लागू नहीं उपवाक्य (बी) के अंतर्गत ऋणदाताओं की श्रेणियां, यदि कोई हों, चिन्हित ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायियों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिये तीन नाम) (क) सुसंगत प्रपत्र एवं (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण, यहां उपलब्ध हैं : वेबलिंक: www.ibbi.gov.in/en/home/downloads ,तदद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण ने उस दिनांक 7 जून 2024 को राम पेपर मिल्स लिमिटेड की, एक निगमित ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया, आरंभ करने का आदेश दिया है . 8 जुन 2024, ईमेल के माध्यम से आदेश की प्राप्ति की तिथि के रूप में)। रतददारा रामा पेपर मिल्स लिमिटेड के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 21 जन 2024 को अथव

इससे पर्व प्रविष्टि सं. 10 के समक्ष वर्णित पते पर अंतरिम समाधान व्यवसायी के पास. साक्ष्य के साथ अप दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दावों के त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दंडित किया जायेगा

हस्ता / संदीप कमार अग्रव के संदर्भ में अंतरिम समाधान व्यवसार्य पंजी. सं: IBBI / IPA-001 / IP-P01135 / 2018-2019 / 11828 स्थान : नई दिल्ली एएफए नं. AA1 / 11828 / 02 / 071224 / 106499 7 दिसंबर 2024 तक वैद्य

कोल्हापूर: प्रत्येक नागरिकाला आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड देण्यासाठी प्रयत्न करा - डॉ. ओमप्रकाश शेटे

योजनेच्या कार्डद्वारे आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाची या योजनेअंतर्गत नोंदणी करून घेवून योजनेचे कार्ड द्यावे, अशा सूचना आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी केल्या. यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे, तसेच नो कार्ड.. नो रेशन हा उपक्रम राबवा, असेही त्यांनी

डॉ. शेटे म्हणाले, आयुष्मान भारत योजनेतून नागरिकांना ५ लाख रूपयांपर्यंत मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात येत आहेत. येत्या काळात देशातील सर्व घटकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यात केशरी, पिवळ्या व पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांना कॅशलेस पद्धतीने आरोग्य सेवा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला या योजनेचा लाभ मि ळवून देण्यासाठी प्रत्येकाची नोंदणी होऊन प्रत्येकाचे कार्ड असणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये शिबिरांचे आयोजन करावे. तसेच नो कार्ड नो रेशन उपक्रम प्रभावीपणे राबवून एकही नागरिक या कार्ड पासून वंचित राहणार नाही,

कोल्हापूर, दि.९: आयुष्मान भारत याची दक्षता घ्यावी. रञ्ण आणि रञ्णालये या दोन्ही घटकांचे हित पाहून आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिती काम करत आहे. जिल्हास्तरीय अधिकारी, समन्वयक, शासकीय व खाजगी राग्णालयांनी देखील नियोजनबद्ध प्रयत्न करून या योजनेचा लाभ अधिकाधिक राग्णांना मिळवून द्यावा. उद्धिष्टापेक्षा कमी लाभ देणाऱ्या हॉस्पिटलना या योजनेतून अपात्र करण्याची कार्यवाही करा, असे निर्देश देवून जिल्ह्यातील अधिकाधिक राग्णालयांनी या योजनेत समाविष्ट होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, सध्या जिल्ह्यातील ५६ खाजगी व ९ शासकीय रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान भारत /महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ दिला जात आहे. यात १३०९ आजारांचे उपचार व औषधे मोफत दिली जात आहेत. जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड देण्यासाठी नियोजनबध्द प्रयत्न सुरू आहेत.

या योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी इच्छुक खासगी राग्णालयांच्या प्रतिनिधींनी समितीकडे प्रस्ताव सादर केले.

दै. 'मुंबई लक्षदीप'

Notice is hereby given that MR. SUNIL SURESHBHAI MEHTA & OTHERS have Mumbai 400 068 alongwith Stilt Parki respect thereof to my client and have instructed me to investigate the title of the aid Premises

All persons having any claim, right, title and nterest against or to the above mentioned Premises or shares in respect thereof o iny part thereof either by way of mortgage sale, gift, inheritance, agreement, lease ien, charge, trust, maintenance pasement, right of way, possession or by rirtue of any testamentary or non estamentary document/s or by virtue of succession, adoption, any suit, litigation dispute, decree, order, injunctior restriction, covenants, statutory order notice/award, notification or otherwise howsoever, are hereby called upon and required to make the same known in writing with due evidence and detailed particulars thereof at my office at 101, Shree Vallably Residency, Daulat Nazar, Poed, No.3. Residency, Daulat Nagar, Road No.3 Borivali (E), Mumbai 400 066 within 1 days from the date of publication of this Notice by Registered Post A.D., failing which, such claim, if any, shall be deemed o have been waived and/or abandoned.

PUBLIC NOTICE

ARC.No. 319/2023

(3rd Oppone

(4th Oppone

P.KARTHIKA, BA LLB (Advocate)

Sree Gokulam Chit & Finance Company (P) Ltd No.49, Arcot Road, Kodambakkam, Chennai-24

VERSUS

Rep.by its.Partner: Mrs. Valsala G.Nair Dr.Rajendra Prasad Road, Thilak Nagar, Dombivili East, Dombivili, Maharasatra-421 201 M/s. V.G.Nair HUF (2nd Opponent) Rep.by Kartha M-V.C.

Rep.by Kartha Mr.V.G.Nair No.A-402, Kausthubham c

Kalyan East, Katemanivali, Kalyan-421 306.

Meera, D/o. V.G.Nair

Date: 10/06/2024

MUMBAI - 400078

una Link Road, Near Bank of India,

No.A-402, Kausthubham complex, Puna Link Road, Near Bank of India, Kalyan East, Katemanivali,

Kalyan-421 306.
Mr.Govind (4th S/o. V.G. Nair
No.A-402, Kausthubham complex,
Puna Link Road, Near Bank of India,

Kalyan East, Katemanivali,
Kalyan-421306.Opponents
Take Notice that the above Arbitration case filed by

Disputant Company for the recovery of Rs. 60,75,000/- together with further interest and case is posted on 13/06/2024.

Therefore you are requested to appear before the learned Arbitrator for Chit Fund Cases, Central Chennai, Chennai-35 on 13/06/2024 at 11.A.M.in

person, failing which the above case will be hear and decided Exparte.

PUBLIC NOTICE

PURCHASE OF FLAT NO. 31 ADMEASURING

ABOUT 386 sq. ft (BUILD-UP AREA) ON THE 3rd FLOOR OF THE BUILDING KNOWN AS

DARLING APARTMENT CO-OPERATIVE

HOUSING SOCIETY LIMITED SITUATED AT

MINI LAND, TANK ROAD, BHANDUP (WEST)

Notice is hereby given to the public at arge that our client Mr. HARBINDER SINGH had purchased the Flat bearing

No. 31 admeasuring about 386 sq. f (build-up area) on the 3rd floor of the

building known as Darling Apartmen

Co-operative Housing Society Limited situated at Mini land, Tank Road, Bhandur (West), Mumbai – 400078, (hereinafte

referred to as the 'said premise'), from it

deceased owner Mr. SARDUL SINGH

Mr. Sardul Singh had agreed to transfer hi rights, title, interest and possession in the

aforesaid property more particularly described in the Schedule given below to

our client. This transfer was in accordance

with the Deed of Assignment that was made

between Mr. Sardul Singh and Mr. Harbinde

Singh as on 22nd June, 2001 In view of the above, we hereby invite claim

or objections from the heir or heirs or other

laimants/ objector/ objectors/ other persor

entity having any interest in the said premise

with respect to the transfer of the said premise

within a period of 15 days from the publicatio

of this notice, with copies of such document

and other proofs in support of his/her/thei claims/objections for transfer of said premise

and interest via R.P.A.D or Speed Post

Parmar Legalism, Advocates, Consultants & Attorneys

C-2010. C Wing. Station Plaza. Station Road

Bhandup West,Mumbai - 400078, Maharashtra

If no claims/objections are received within the

period prescribed above, the claim or claims, or

any of such person /persons will be considered

to have been waived and or abandoned and the

transfer shall be completed.
THE SCHEDULE OF PROPERTY ABOVE REFERRED TO

ALL THAT Flat No. 31 admeasuring about 386 sq. ft (build-up area) on the 3rd floor of the

uilding known as Darling Apartmen

Co-operative Housing Society Limited situated at Mini land, Tank Road, Bhandup (West)

Mumbai – 400078, within the limits of "S" Ward

of Municipal Corporation of Greater Mumbai in

ne District and suburban district

Greater Mumbai, bearing CTS No. 150.

Adv. Chetan Parma

entioned address:

agreed to sell their premises viz. Un No.210 with loft on Second floor in the building known as Diamonda, Tanvi' Diamoda Industrial Premises Co-operative Society Ltd., situated at Novelty Silk Mi Compound, S. V. Road, Dahisar (E Space No.44 of the said building (The said Jnit, loft and the said parking shal ereinafter collectively be referred to as the said Premises") and also shares

Parnter SHARMA & ASSOCIATES

पिरामल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालयः पिरामल अनंता, अगस्त्य कॉपोरेट पार्क

कुर्ला पश्चिम, मुंबई-४०००७०. दुर:९१-२२-३८०२३०००/४०००, **इ-मे ल**:complianceofficer.pel@piramal.com,

सीआयएन: ए२४११०एमएच१९४७पीएलसी००५७१९

Piramal अग्निशमन केंद्रासमोर, कमानी जंक्शन, एल.बी.एस. मार्ग

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लाभांशाकरिता

नोंद तारखेची माहिती

सदस्यांना वास्तविक उपस्थितीशिवाय **व्हिडीओ कॉन्फरसिंग (व्हीसी)/अन्य**

टृकश्राव्य स्वरुपाने (ओएव्हीएम) मार्फत सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत **(एमसीए)**

र्दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, आणि या संदर्भात जारी केलेले त्यानंतरचे परिपत्रक,

नवीनतम एक सर्वसाधारण परिपत्रक क्र.०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३

(यापुढे एमसीए परिपत्रक म्हणून संदर्भ) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड

ऑफ इंडिया (सेबी) ने ५ जानेवारी, २०२३ आणि ७ ऑक्टोबर, २०२३ च्या

परिपत्रकाद्वारे आणि या संदर्भात जारी केलेल्या इतर लागू परिपत्रकांद्वारे (सेबी

परिपत्रक म्हणून संदर्भ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आयोजित करण्याची

परवानगी सामान्य ठिकाणी दिली आहे. एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार आणि

कंपनी कायदा २०१३ **(कायदा)** च्या आवश्यक तरतुदी व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स

व डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स्) रेग्युलेशन २०१५ नुसार **एजीएम** घेण्याच्या सुचनेत

नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता **पिरामल एंटरप्रायझेस लिमिटेड (कंपनी)** ची

७७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, ८ जुलै, २०२४ रोजी दु.३.००वा.

(भाप्रवे) व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत संचालित केले जाईल

मार्फत एजीएम उपस्थित सदस्यांची मोजणी केली जाईल.

वेबसाईटःwww.piramalenterprises.com

दिवा प्रभाग समिती क्षेत्रात झाली सर्वंकष स्वच्छता मोहीम

क्षेत्रात सूरू असलेल्या सर्वंकष स्वच्छता मोहिमेत दिवा प्रभागात स्वच्छता करण्यात आली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त येथील साफसफाई अभियानात सहभागी होऊन परिसराची स्वच्छता केली. तसेच, प्रभागातील स्वच्छता मोहिमेची पाहणीही केली. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या निर्देशानुसार करण्यात येत असलेल्या या मोहिमेची सुरुवात शीळफाटा चौक स्वच्छ

and LOF dated May 30, 2024 published on May 31, 2024.

ठाणे, ९ जून : ठाणे महापालिका करण्याने झाली. अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्यासह उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) तुषार पवार, सहाय्यक आयुक्त अक्षय गुडदे, आरोग्य अधिकारी डॉ. राणी शिंदे आदी या मोहिमेत सहभागी झाले होते. या मोहिमेत, दिवा आणि परिसरातील मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते, चौक, रस्ते दुभाजक यांची स्वच्छता करण्यात आली. दुकानांसमोर रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त रोडे यांनी यावेळी

POST OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR DELISTING OFFER IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS 17(4) AND 23 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2021, AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("SEBI DELISTING REGULATIONS")

FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF



SHARDUL SECURITIES LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L50100MH1985PLC036937 Registered Office: G-12, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, Mumbai - 400021; Tel. No: +91 22 46032806 / 22-46032807; Email id: investors@shriyam.com; Website: www.shardulsecurities.com

Contact Person: Daya Bhalia, Executive Director and Company Secretary This post offer public announcement ("Post Offer Public Announcement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limitec

("Manager to the Offer") for and on behalf of A To Z Broking Services LLP ("Promoter Acquirer 1"). Raiesh Dinanath Chaturyed "Promoter Acquirer 2"), Gagan Dinanath Chaturvedi ("Promoter Acquirer 3") and Brijesh Devesh Chaturvedi ("Promoter Acquirer 4"), ("Promoter Acquirer 1"), ("Promoter Acquirer 2"), ("Promoter Acquirer 3") and ("Promoter Acquirer 4") collectively referred to as "Promoter Acquirers"), and other members of promoter and promoter group of Shardul Securities Limited ("Company") to the public shareholders as defined under Regulation 2(1)(t) of the SEBI Delisting Regulations ("Public Shareholders") of the Company in respect of the acquisition of up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Hundred and Twenty Six) ("**Offer Shares"**) equity shares o face value Rs. 10/- each (**"Equity Shares"**) representing 25.16% of the paid up Equity Share Capital of the Company and consequent voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from the BSE Limited ("BSE"), the only Stock Exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, pursuant to applicable provisions of the SERI Delisting Regulations ("Delisting Offer") This Post Offer Public Announcement is in continuation to and should be read in conjunction with the Initial Public Announcement dated December 15, 2023 ("IPA"), the Detailed Public Announcement dated May 20, 2024 published on May 21, 2024 ("DPA") in Business Standard (English-All Editions), Business Standard (Hindi – All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi – Mumbai Edition), the Letter Of Offer dated May 21, 2024 ("LOF") dispatched to the Public Shareholders on May 24, 2024 and the Corrigendum to the DPA

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Public Announcement shall have the same meaning assigned to them as in the

The Promoter Acquirers had issued IPA, DPA and LOF to acquire, in accordance with the SEBI Delisting Regulations up to 44,02,626 (Forty Four Lakhs Two Thousand Six Hundred and Twenty Six) ("Offer Shares") representing 25.16% of the Paid up Equity Share Capital of the Company, held by the Public Shareholders of the Company, being all the Public Shareholders of the Company other than the Promoter and the Promoter Group members, in accordance with provisions of the SEBI Delisting Regulations on the terms and conditions set out in the IPA, DPA and LOF. The Public Shareholders holding Equity Shares of the Company were invited to tender their Equity Shares pursuant to reverse book- building process as prescribed in the SEBI Delisting Regulations through Stock Exchange Mechanism made available by BSE ("**Reverse Book Building Process**"/ "**RBBP**") during the Bid Period started from Friday, May 31 2024 to Thursday, June 06, 2024 (both days inclusive) (in accordance with the SEBI Delisting Regulations ("Bids") FAILURE OF THE DELISTING OFFER

In terms of Regulation 21 of the SEBI Delisting Regulations, this Delisting offer would be deemed to be successful only if the pos offer shareholding of the Promoter Acquirers, along with the shares tendered / offered by public shareholders accepted as eligible bids at the discovered price or the counter offer price, as the case may be, reaches 90% of the total issued Share Capital of the Company, excluding such Equity Shares as per Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations ("Minimum Acceptance Condition") 1.2 Link Intime India Private Limited, Registrar to the Delisting Offer, vide Certificate dated May 24, 2024, confirmed that the Letter of

Offer has been dispatched to all the public shareholders, whose email ids were available, through email as an attachment to emai

and to the remaining shareholders (including those to whom email cannot be delivered successfully) by the speed post 1.3 In the Reverse Book Building Process, a total of 5,04,702 Equity shares have been validly tendered between price range from ₹ 150.15 per Equity Share to ₹ 1,499 per Equity Share. However, the Shares tendered are less that the Minimum Acceptance Condition, as mentioned in Clause 1.1 of this Post Offer Public Announcement and the post Delisting shareholding of the Promote Acquirers, along with the other promoter and promoter group, has not exceeded 90% of the total issued number of Equity Shares (excluding such Equity Shares as per Regulation 21(a) of SEBI Delisting Regulations).

1.4 The Delisting Offer is thus considered to have failed in terms of Regulation 21(a) of the SEBI Delisting Regulations Accordingly, the Promoter Acquirers will not acquire any Equity Shares tendered by the Public Shareholders in the Delisting Offe

and the Equity Shares of the Company will continue to remain listed on the Stock Exchange. Further, no final application will be made to the Stock Exchange for delisting of Equity Shares in terms of the provisions of the SEBI Delisting Regulations.

1.6 Pursuant to Regulation 23(2) of the SEBI Delisting Regulations, the equity shares tendered / offered in terms of Schedule II of the

SEBI Delisting Regulations have been released on the date of disclosure of the outcome of the reverse book building process, i.e Thursday, June 06, 2024. All other terms and conditions set forth in the Detailed Public Announcement and the Letter of Offer remain unchanged. This Post

Offer Public Announcement is issued on behalf of the Promoter Acquirers by the Manager to the Offer in terms of Regulation 17(4) of the SEBI Delisting Regulations. All gueries may be directed to the Manger of the Offer or the Registrar to the Offer

The Post Offer PA is also expected to be available on the website of the Stock Exchanges www.bseindia.com, website of Manager to the Offer i.e. www.saffronadvisor.com and the website of the Company i.e. www.shardulsecurities.com

MANAGER TO THE OFFER

SAFFRON

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

605, 6th floor, Centre Point, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400059, Maharashtra, India Tel. No.: +91 22 4973 0394; Fax: N.A. E-**mail id:** delistings@saffronadvisor.com Website: www.saffronadvisor.com

Investor grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211 Validity of Registration: Permanent

Contact Person: Saurabh Gaikwad/ Satej Darde

REGISTRAR TO THE OFFER **LINK** Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai- 400083 **Tel. No.:** +91 810 811 4949; Fax: +91 22 49186060 Email id: shardul.delisting@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in SEBI Registration Number: INR000004058; Validity of Registration: Permanent Contact Person: Pradnya Karanjekar

On the Behalf of Promoter Acquirers

*Signed by Pravin Mundhwa, for and on behalf of the Promoter Acquirers, holding Specific Power of Attorney dated 17" Place: Mumbai, Date: June 08, 2024

सातारा जिल्हा महिला सुरक्षा प्रकल्प राज्यासाठी आदर्शवत - शंभुराज देसाई

सातारा, दि.९ : महिलांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यादृष्टीने सातारा जिल्हा पोलीस प्रशासनाचा भरोसा- सातारा जिल्हा महिला सुरक्षा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून हा प्रकल्प राज्यासाठी निश्चितपणे दिशादर्शक व आदर्शवत ठरेल, असा विश्वास राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आणि पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी

या प्रकल्पासाठी

आवश्यक निधी

उपलब्ध करून

देण्याची ग्वाही दिली. सुरक्षिततेच्या दुष्टीकोनातून पोलीस विभाग राबवित असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, अप्पर पोलीस अधिक्षक आँचल दलाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, म

सातारा जिल्ह्यातील मागील पाच वर्षातील महिलांबाबत घडणा-या गुन्ह्याचा तपशील पाहता यामध्ये बलात्कार २४८, पोक्सो अंतर्गत गुन्हे ९६४, कौटुंबिक हिंसाचार ८६९, लैगिंक अत्याचाराचे १ हजार ३९९ गुन्हे दाखल

हिला व बाल विकास

प्रमुख उपस्थित होते.

अधिकारी विजय

तावरे, यांच्यासह

विविध यंत्रणांचे

पोलीस दलाकडून महिलांच्या सुरक्षितेतकरीता सातारा जिल्हा महिला सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

आहेत, त्या अनुषंगाने जिल्हा

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Share Certificate No. 20 dated 02nd December 1985 having distinctive Nos. from 96 to 100 MOHANSINGH BHAGWANSINGH BED and later it was endorsed to SMT. VEENA M. BEDI on 14th February 2002, later by virtue of Deed of Transfer in March 2003 MR. TAPAN KUMAR JENA & MRS MEENAKSHI TAPAN JENA purchased rom said Smt. Veena M. Bedi the said Fla No. 04, in A Wing in Income Tax Departmen Co-operative Housing Society Ltd vide registration no. BOM/HSG/K-W/7387 1984 dated 27/03/1984 having its registere office at Plot Nos. 52, 53, 54 Survey No.111 D & 141-A, Ambivali Village, Near R.T.O. Off Four Bungalows, Andheri (West) Mumba 400053 is reported lost or misplaced by Mr Tapan Kumar Jena & Mrs. Meenakshi Tapai

efforts the same could not be traced out of

AND WHEREAS, the said member has Complaint in respect of the loss of Origin Share Certificate lodged at Vastrapu Police Station, Ahmedabad.

Co-operative Housing Society Itd. Place : Mumbai Date: 10/06/2024 Adv. Sundeep P. Kolaki

502, Rukmini Building, Plot No.36 Sector 2, Charkop, Kandival

PUBLIC NOTICE

MRS. CHHAYA DEEPAK TALPADE were the members of the Bali Residency Co operative Housing Society Ltd. registere under MUM/WP/HSG/(TC)/14442/2008-09 dated 20.02.2009 having its registered office at Rathodi, Marve Road, Malad (West Mumbai 400095 and holding right, title, share and interest jointly in Flat No. 1406, fourteent floor, in the building of the society, died of 28/11/2013 and 12/11/2021 respectivel without making any nomination. The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants/ objector of objectors to the transfer of the said share and nterest of the deceased member in the capital/ property of the society within a perior of 15 days from the publication of this notice with copies of such documents and othe proofs in support of his objections for transfe f shares and interest of the deceased member in the capital/ property of the society f no claims/ objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and intere f the deceased member in the capita property of the society in such manner as i rovided under the bye-laws of the society The claims/ objections, if any, received by th society for transfer of shares and interest of he deceased member in the capital/ property of the society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society. copy of the registered bye-laws of the societ is available for inspection by the claimant objectors, in the office of the society/ with the Secretary of the society between 4.00 P. M to 6.00 p.m. from the date of publication the notice till the date of expiry of its period. Place: Mumbai

Date: 10 June'2024 for Bali Residency Co-operative Housing Society Ltd. & its managing com

ADV. SUNDEEP P. KOLAK 502, Rukmini Building, Plot No.36, Sector 2, Charkop, Kandivali (West) Mumbai 400067

Jena. WHEREAS, the said purchasers or 30/04/2024 applied to said society for issue of a Duplicate Share Certificate in lieu of Original Share Certificate ostensibly on the ground that the same was lost / misplace n transit on 27/04/2024 and despite diligen

produced before the said society a Police

Therefore, any person(s) financial Institution(s) having any claim on the said Share Certificate should forward their claim in writing with proper documentary evidence regarding title, right or objection to the undersigned Advocate Sundeep P. Kolak within 15 days after which the society will issue a duplicate share certificate to them and no claim will be entertained by the society thereafter.

For Income Tax Departmen

(West) Mumbai 40006

एमसीए परिपत्रके व सेबी परिपत्रकानुसार एजीएम सूचना, वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवाल सर्व सदस्यांना ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) किंवा कंपनी/लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम) कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतर प्रतिनिधी (आरटीए) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने पाठविण्यात आले आहे. सदर दस्तावेज कंपनीच्या www.piramalenterprises.com आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या <u>www.nseindia.com</u> व बीएसई लिमिटेडच्या <u>www.bseindia.com</u> वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <u>www.evoting.nsdl.com</u> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सदस्यांना व्हीसी/ओएव्हिएममार्फत एजीएममध्ये उपस्थित/सहभागी होता येईल. एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी माहिती एजीएम सुचनेत नमुद आहे आणि कंपनी कायद्याच्या कलम १०३ अन्वये गणसंख्याकरिता व्हीसी/ओएव्हीएम

कंपनीद्वारे एजीएम सुचनेत नमुद ठरावांवर मत देण्यासाठी सदस्यांना रिमोट ई व्होटिंग सुविधा तसेच एजीएम दुरम्यान ई-व्होटिंग मतदान प्रणालीने सुविधा दिलेली आहे. सदस्यांना सदर सुविधा देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांची सेवा नियुक्त केली आहे. या संदर्भातील सविस्तर माहिती एजीएमच्या सुचनेचा भाग असेल

अंतिम लाभांश देणे

३१ मार्च, २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षांकरिता रु.२ प्रत्येकी दर्शनी मुल्याचे रु.१० प्रती समभागाच्या अंतिम लाभांशाकरिता पात्र सदस्यांची नावे निश्चितीसाठी 'नोंद दिनांक' म्हणून कंपनीने **शुक्रवार, ५ जुलै, २०२४** निश्चित केली आहे, जे कंपनीच्या ७७व्या एजीएममध्ये घोषित केले जाईल.

वास्तविक स्वरुपामध्ये भाग धारण करणाऱ्या सदस्यांना विनंती आहे की सेबी/ एचओ/एमआयआरएसडी/एमआयआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआयआर/२०२१/ ६५५ दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२१ च्या परिपत्रकाच्या संदर्भात नोंद घ्यावी (याचा भाग म्हणून समाविष्ट सेबी मास्टर परिपत्रक क्र.सेबी/एचओ/एमआयआरएसडी/ पीओडी-१/पी/सीआयआर/२०२४/३७ दिनांक ७ मे, २०२४), सभासद वास्तविक स्वरुपामध्ये भागधारण करतात, ज्यांचे फोलिओ कोणत्याही सोबत अपडेट केलेले नाहीत केवायसी तपशील उदा., (१) पॅन; (२) नामांकनाची निवड; (३) संपर्क तपशील; (४) मोबाईल नंबर; (५) बँक खाते तपशील आणि (६) स्वाक्षरी १ एप्रिल, २०२४ पासून केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लाभांश देण्यास पात्र असेल. वरीलनुसार, लाभांश, फिजिकल फोलिओजच्या संदर्भात, ज्यामध्ये वरीलपैकी कोणतेही केवायसी तपशील रेकॉर्ड तारखेपूर्वी अपडेट केलेले नाहीत, कंपनीकडून परत रोखले जातील, सदस्यांनी कृपया लक्षात ठेवावे की केवायसी तपशील फोलिओमध्ये अपडेट केल्यानंतरच लाभांश त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.

प्राप्तिकर कायदा, १९६१ (आयटी कायदा) च्या तरतूर्दीनुसार, १ एप्रिल, २०२० पासून फायनान्स ॲक्ट, २०२० च्या तरतुर्दीमध्ये सुधारणा केल्याप्रमाणे आणि वाचल्यानुसार, लाभांश दिलेला किंवा वितरित केला गेला. कंपनी भागधारकांच्या हातात करपात्र असेल. म्हणून, कंपनीने, लागू दराने भागधारकांना दिलेल्या लाभांशातून स्रोतावरील कर (टीडीएस) कापून घेणे आवश्यक आहे.

टीडीएस आवश्यकतांची पूर्तता सक्षम करण्यासाठी, सदस्यांना विनंती केली जाते की त्यांनी त्यांची निवासी स्थिती, पॅन आणि श्रेणी आयटी कायद्यानुसार त्यांच्या डीपीसह पूर्ण करा आणि/किंवा अद्ययावत करा किंवा शेअर्स कंपनी/आरटीए सोबत फिजिकल मोडमध्ये असतील तर सोमवार, १ जुलै, २०२४ रोजी सायं.६.००वा. भाप्रवे किंवा त्यापूर्वी वरील कागदपत्रांच्या स्वयं-साक्षांकित प्रतींसह प्रथम नामांकित सदस्याने रीतसर स्वाक्षरी केलेली लेखी विनंती सादर करावे.

या संदर्भात, **शुक्रवार, ३१ मे, २०२४** रोजी भागधारकांना एक स्वतंत्र संप्रेषण पाठविण्यात ऑले होते ज्यात त्यांना लागू कर दरांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी अवलंबल्या जाणाऱ्या संबंधित प्रक्रिया/कागदपत्रे सादर केली होती. तपशीलवार कर दर आणि इतर दस्तऐवजांसह हा संवाद कंपनीच्या https:// www.piramalenterprises.com/shareholder-information वर वेबसाइटवर उपलब्ध आहे

ईमेलची नोंदणी आणि/किंवा बँक खाते अपडेट करणे

ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत नाहीत आणि/किंवा ज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक प्रेषणाद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात लाभांश प्राप्त करण्यासाठी त्यांचे बँक खाते तपशील अपडेट केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी खाली दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे:

वास्तविक धारणा तुमचे ई-मेल आणि तुमचे बँक खाते तपशील विहित नमूना आयएसआर-१ मध्ये सर्व आवश्यक दस्तावेजांसह लिंक इनटाईम यांच्याकडे rnt.helpdesk@linkintime.co.in मेलवर किंवा कुरियरने सी-१०१, १ला मजला, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई-४०००८३ येथे नोंद/अद्यायावत करावे. त्यांनी त्यांचे ई-मेल आणि बँक खाते तपशील डीपीद्वारे विहीत डिमॅट धारणा

सही/-

ठिकाण: मुंबई दिनांकः ९ जून, २०२४

प्रक्रियेचे पालन करून संबंधीत डिपीकडे नोंदवावीत. पिरामल एन्टरप्रायझेस लिमिटेडकरिता बिपिन सिंग

कंपनी सचिव

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF

OASIS SECURITIES LIMITED ("OSL"/"OASIS"/"TARGET COMPANY"/"TC")

(Corporate Identification No. L51900MH1986PLC041499) Registered Office: Raja Bahadur Compound, Building No. 5, 2nd Floor, 43, Tamarind Lane, Mumbai - 400023. Phone No.: 022-40463500/01; Email id: admin@oasiscaps.com; Website: www.oasiscaps.com

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 This corrigendum to the letter of offer is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Rajesh Kumar Sodhani (Acquirer 1), Mrs. Priya Sodhani (Acquirer 2) and Mr. Gyan Chand Jain (Acquirer 3) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/P/OW/2023/29989/1 dated July 26, 2023 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 4,81,000 Equity Shares of Rs. 10/- each

representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Mumbai Lakshadeep - Marathi Daily (Mumbai edition) on 22nd May, 2023. **ATTENTION SHAREHOLDERS -**

CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER DATED MAY 30, 2024

Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the followings:

1. The offer price which was initially decided at Rs. 84/- (Rupees Eighty Four Only) per equity share in accordance with Regulation 8 (8) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Further, In line with SEBI letter dated August 04, 2023, in addition to the offer price mentioned above, the Acquirers shall pay interest @ 10% per annum as prescribed in Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations for any delay in payment beyond the Scheduled Payment Date (period commencing from the Scheduled Payment Date till the actual date of payment of consideration under the Offer). Accordingly, the Offer Price has been revised to Rs. 91.00/- (Rupees Ninety One only) per fully paid- up Equity Share of Rs. 10 each, including interest @ 10% per annum for delay in payment beyond the scheduled payment date.

This is to inform you that in the Letter of Offer on cover page, page 4, page 5, page 10, page 19 and page 20 revised offer price was advertentlymentioned as Rs. 90.50 per fully paid- up Equity Share of Rs. 10 each, including interest @10% per annum for delay in payment beyond the scheduled payment date, it should be read as Rs. 91.00 per fully paid- up Equity Share of Rs. 10 each, including interest @10% per annum for delay in payment beyond the scheduled payment date.

2. Acquirers had deposited cash of an amount of Rs. 101.01 Lacs (Rs. 101.00 Lacs on May 12, 2023 and Rs. 1,000 on May 15, 2023) in an escrow account opened with Kotak Mahindra Bank Limited, which was 25% of the Offer Consideration. Further, In line with SEBI letter dated 04th August, 2023, the Offer Price has been revised to Rs. 91.00 Per Equity Share including interest @ 10% per annum, payable on account of delay in payment beyond the scheduled payment date. Accordingly, the Acquirer has deposited additional amount in the Escrow Account (Rs. 8,00,000 on May 30, 2024 and Rs. 50,000 on June 07, 2024), in cash, so that the amount initially deposited along with the additional amount deposited in the Escrow Account is more than 25% of the Maximum Consideration payable under the Offer.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA. DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. RAJESH KUMAR SODHANI, MRS. PRIYA SODHANI AND MR. GYAN CHAND JAIN



Place: Mumbai Date: June 07, 2024

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED 804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road,

Andheri East, Mumbai - 400059.

Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078; **Email id**: <u>navigant@navigantcorp.com</u> Website: www.navigantcorp.com; SEBI Registration No: INM000012243

Contact person: Mr. Sarthak Vijlani